



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25—जुलाई 31, 2009 (श्रावण 3, 1931)

No. 30]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25—JULY 31, 2009 (SRAVANA 3, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 26 जून 2009

सं. ए-12011/6/2008-(प्रशासन)--राष्ट्रपति, डॉ. (कु.) सुधा रमन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में सहायक निदेशक के पद पर संविदा आधार पर वेतन बैंड-3 के रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5400/- में दिनांक 01 जून, 2009 के पूर्वाह्न से, प्रारम्भ में 03 वर्ष की अवधि के लिए (01 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि सहित), जो आगे 02 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

पी. के. राय, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2009

सं. ए-43011/02/2009-प्रशासन-1 (खण्ड-2)--योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू. आई. डी. ए. आई.) के गठन के बारे में योजना आयोग के दिनांक 28-01-2009 के अधिसूचना सं. ए-43011/02/2009-प्रशासन-1 के अनुक्रम में, यह

अधिसूचित किया जाता है कि इनफोसिस के सह-अध्यक्ष श्री नन्दन नीलेकनी को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय मंत्री के रैंक एवं स्तर पर नियुक्त किया जाता है। उक्त पद पर श्री नीलेकनी का कार्यकाल पाँच वर्ष की अवधि के लिए होगा।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. ए-44011/5/2009-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग के मिसिल सं. 13016/2/2009-आई.ई.एस. के तहत दिनांक 05-06-2009 के आदेश सं. पी-3/2009 का अनुपालन करते हुए योजना आयोग में निदेशक के पद पर कार्यरत भारतीय आर्थिक सेवा के एन.एफ.एस.जी. अधिकारी श्री जे.एस.नेगी को रु. 18,400-22,400/- वेतनमान (संशोधन पूर्व) (संशोधन के बाद वेतन बैंड 4 : रु. 37,400-67,000/- + रु. 10,000/-) में सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एस.ए.जी.) में, मंत्रीमंडल नियुक्ति समिति का दिनांक 21-08-2008 का निर्णय और उसके बाद के दिनांक 10-09-2008 के राजपत्र अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 648(ई) के तहत एस.ए.जी. में उन्नयन की गई पद पर, दिनांक 29-06-2009 (पूर्वाह्न) से पदोन्नत किया जाता है।

2. यह पदोन्नति उक्त अधिकारी के सेवा-निवृत्त होने पर अथवा मंजूर कि गई एस.ए.जी. स्तर पर मंजूर पद पर उनके पदोन्नति हो जाने पर उक्त उन्नयन किया गए पद एन.एफ.एस.जी. स्तर पर वापस चली जाएगी।

3. एस.ए.जी. में उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप उन्हें योजना आयोग में सलाहकार का पदनाम दिया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 8 जुलाई 2009

सं. एफ. 6(2059)/2008-प्रशासन-1--योजना आयोग के दिनांक 29 मई, 2009 के समसंख्यक अधिसूचना का पाक्षिक संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना के पैरा 2 को निम्नवत् पढ़ा जाए :

"2. उपरोक्त के अनुक्रम में श्री अहूजा को दिनांक 29-05-2009 तक की अवधि के लिए अर्जित अवकाश की स्वीकृति, दिनांक 30 और 31 मई, 2009 (शनिवार और रविवार) को अवकाश के बाद जोड़ने की अनुमति के साथ, प्रदान की जाती है। अवकाश के बाद वे अपने मूल कैडर अर्थात् उड़ीसा सरकार में कार्यभार संभालेंगे।"

2. पहले की अधिसूचना में कही गई अन्य बातें यथावत रहेंगी।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 7 जुलाई 2009

सं. ए-20/जी-बी/157--आयोग की दिनांक 26 जून, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग में वेतन बैंड-2, रु. 9,300-34,800/- सादृष्य वेतन ग्रेड रु. 4,800/- के वेतनमान में, सहायक लेखा अधिकारी श्री पी. के. गिरि, की प्रतिनियुक्ति की पदावधि आगे एक वर्ष के लिए दिनांक 01.08.2009 से 31.07.2010 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा बढ़ायी जाती है।

एस. आर. कार, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2009

सं. 107/2009 फा. सं. ए-38013/2/2009-वि.सा.प्र. (प्रशा.)--विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन में प्रकाशन-सह-विक्रय प्रबन्धक पद पर श्रीमती सरस्वती विश्वनाथन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर तारीख 30 जून, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं और उन्होंने उपर्युक्त तारीख से उक्त पद का पदभार छोड़ दिया है।

कुलदीप कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2009

सं. ए-12025(1)/3/2006-प्रशा.-I (वि.वि.)/भाग II--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के पद पर कार्यरत डॉ. जी. नारायण राजू को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में रुपए 37,400-67,000/- के वेतन बैंड + रुपए 10,000/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 06 जुलाई, 2009 की पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-I) नियुक्त करते हैं।

2. डॉ. जी. नारायण राजू दिनांक 06 जुलाई, 2009 से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

एम. आर. बीर, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2009

सं. ए-38013/1/2009-प्रशा. IV (वि.का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री ज्योतिरमय खोसला, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग दिनांक 30 जून, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-38013/1/2009-प्रशा. IV (वि.का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री वाई. पी. कक्कड़, निजी सचिव दिनांक 30 जून, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2009

सं. 44/15/2008-एनडीएम-IV--राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों की केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियमित आधार पर, उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से सहर्ष नियुक्ति करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	चयन ग्रेड हेतु चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री प्रेम कुमार	2006	23.02.2009 (पूर्वाह्न)
2.	श्री आर. के. सिंह	2007	20.02.2009 (पूर्वाह्न)

प्रोमिला सेनगुप्ता
अवर सचिव

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 29 जून 2009

सं. 14046/11/2009-यू.टी.एस-II--गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार

द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा (दानिक्स) के प्रविष्टि ग्रेड अधिकारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी हैं, दानिक्स के प्रविष्टि ग्रेड अधिकारी श्री एस. के. खोसला (जन्म की तारीख 30.06.1953) की दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं और उन्हें सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 (1) के अंतर्गत 7 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

जे. के. सिंह, डैस्क अधिकारी

दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. 14046/12/2009-यू टी एस-II--गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा (दानिक्स) के प्रविष्टि ग्रेड अधिकारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी हैं, दानिक्स के प्रविष्टि ग्रेड अधिकारी श्री विनोद कुमार मल्होत्रा (जन्म की तारीख 10.04.1952) की दिनांक 9 मार्च, 2009 की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं और उन्हें सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 (1) के अंतर्गत 2 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

जे. के. सिंह, डैस्क अधिकारी

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2009

सं. 14013/07/2009-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री पी. ई. गायकवाड	1997	29/03/2005
2.	श्री एस. आर. दौंड	1997	29/03/2005
3.	श्री पी. एन. भापकर	1997	29/03/2005
4.	श्री डी. एस. ढोक राजुरकर	1998	29/03/2005
5.	श्री एच. के. जावले	1998	29/03/2005
6.	श्री आर. आर. जाधव	1998	29/03/2005
7.	श्री वी. वी. देशमुख	1998	29/03/2005
8.	श्री एस. पी. कडू	1998	29/03/2005
9.	श्री जे. डी. पाटील	1998	29/03/2005
10.	श्री एस. आर. हजारे	1998	29/03/2005
11.	श्री बी. डी. सानप	1998	29/03/2005
12.	श्री पी. डी. गेब्रिएल	1998	29/03/2005
13.	श्री एम. एच. सावंत	1998	26/05/2005

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. 14012/06/2009-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री ज़फर पी. सी.	2003	03/09/2005
2.	श्री मनोज कुमार मीणा	2003	01/09/2005

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2009

सं. 08/पी.ए.-II/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, भारत के राजदूतावास, ल्युबल्याना, में प्रथम सचिव, श्री सुशील कुमार दत्ता भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से 28 फरवरी, 2009 के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव

दिनांक 24 मार्च 2009

सं. 13/पी.ए.-II/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, उप सचिव, श्री आर. जी. नायर, सरकारी सेवा से 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2009

सं. ए. 19012/03/2005-प्रशा. I क.--भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग के दिनांक 29.06.2009 के आदेश सं. 13016/1/2008-आई.ई.एस. के तहत योजना आयोग से आर्थिक कार्य विभाग में अस्थायी रूप से स्थानांतरित भारतीय आर्थिक सेवा के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड-प्लस (एचएजी+) स्तर के पद की अवधि में एक वर्ष की बढ़ोतरी किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के पद पर कार्यरत, श्री आर. सी. श्रीनिवासन (आई.ई.एस.) की नियुक्ति की अवधि को 1 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से 80,000/- रुपए (नियत) के वेतनमान में, 30.06.2010 तक की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक बढ़ाते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2009

सं. ए-12026/5/2005-प्रशा. I--इस विभाग की अधिसूचना सं. पी एफ जी (2142)/प्रशा. I/2004 दिनांक 14 जुलाई, 2004 के अनुक्रम में राष्ट्रपति व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा वित्त सलाहकार के रूप में कार्यरत श्री एम. दीन दयालन, आई ए एंड ए एस (1978) की

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 11.07.2009 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 28.02.2010 तक और आगे बढ़ाते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2009

शुद्धि-पत्र

सं. ए-5(2)/2009-एस ई जेड--इस मंत्रालय की दिनांक 1 जून, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुसरण में उप विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन, चेन्नई के वेतनमान को 15,600—39,100/- रुपए + 6,000/- रुपए ग्रेड पे के स्थान पर "15,600—39,100/- रुपए + 6,600/- रुपए ग्रेड पे" पढ़ा जाए। अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

डी. एल. अलवाधी, अपर सचिव

पूर्ति प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2009

सं. ए-35013/1/2009-संवर्ग--राष्ट्रपति, सुश्री माला आर्यंगर, आई. डी.ए.एस. (91) को वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) में 19 जून, 2009 के पूर्वाह्न से निदेशक के नाते नियुक्त करती है। उनकी यह नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पाँच वर्ष अर्थात् 18 जून, 2014 के अपराह्न तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक होगी जैसाकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 8 जून, 2009 के का.ज्ञा. सं. 10/5/2009 ई.ओ. (एमएम-1) द्वारा संसूचित किया है।

परमजीत सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2009

शुद्धि-पत्र

सं. ए-12022/25/2007-स्थापना-IV--मंत्रालय की दिनांक 14 मई, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना (प्रति संलग्न) के क्रम में विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त के रूप में श्री एम. एस. राव, आई ए एस (ए एम : 87) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को "दिनांक 27.03.2009 से 23.12.2011 अर्थात् उनके द्वारा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की सात वर्ष की अवधि पूरी करने की तारीख तक की अवधि के लिए, अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पढ़ा जाए।"

2. अन्य निबंधन तथा शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

एन. के. लखनपाल, अवर सचिव

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2009

सं. 7(11)/2007-आईपीआर-IV (आईपीएबी)-राष्ट्रपति, सुश्री एस. ऊषा, तकनीक सदस्य, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) को

22 जून, 2009 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 65 वर्ष की आयु के होने तक, जो भी पहले हो, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, चेन्नई में उपाध्यक्ष नियुक्त करती है।

2. बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड में उपाध्यक्ष के रूप में सुश्री एस. ऊषा को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें, जिनके द्वारा वे प्रशासित होंगी, "बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड नियमावली, 2003 तथा संशोधन नियमावली, 2007" (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य को देय वेतन तथा भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) के उपबंधों के अनुसार होंगे।

एम. एस. धाकड़, निदेशक

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग)
(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 13 जुलाई 2009

सं. ए-12011/5/2004-स्थापना (एनपीपीए)--राष्ट्रपति जी, इस कार्यालय के दिनांक 29 जुलाई 2008 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री के. के. जैन, उप निदेशक (तकनीकी) को निदेशक (प्रबोधन एवं प्रणाली) के पद पर तदर्थ प्रोन्नति की अवधि को दिनांक 1.1.2009 से एक वर्ष की अवधि या नियमित उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाते हैं।

आर. सी. भट्ट, निदेशक (प्रशासन)

औषध निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2009

सं. ए-19011/5/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (आईटी : 95), के अधिकारी श्री परेश जौहरी, उप सचिव, को 10 जुलाई, 2009 से उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 28.11.2009 तक अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उनके लिए व्यक्तिगत उपाय के रूप में उप सचिव के पद को निदेशक के पद के रूप में पुनः पदनामित करके औषध निर्माण विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राम चन्द्र, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2009

सं. 5(10)/2007-स्थापना--इस्पात मंत्रालय की दिनांक 5.6.2009 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्री बी. एस. मीणा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमएच : 75) को 17 मई, 2009 (पूर्वाह्न) से इसी मंत्रालय में विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नियुक्त करते हैं।

जी. वैधेशरण, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 9 जुलाई 2009

सं. ए-19011/8/2009-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री रोहित माथुर को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 जुलाई, 2009 के आदेश सं. 4/1/2009-सीएस-1 (डी) की शर्तों के अनुसार 7.7.2009 (अपराह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में नियमित आधार पर उप सचिव (वर्ष 2007 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन ग्रेड) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. नन्दा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. ए-12011/8/2006-प्रशासन--इस विभाग के दिनांक 3 जून, 2009 के कार्यालय आदेश संख्या 48/2009 के क्रम में राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित विधिक माप विज्ञान सहायक श्री राकेश जोशी को दिनांक 3 जून, 2009 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उनको नियमित आधार पर नियुक्त कर लिए जाने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में 15,600--39,100/- रुपये (पी बी-3) के वेतन बैंड और 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन में पूर्णतः तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री राकेश जोशी को सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के ग्रेड में नियमित पदोन्नति, वरीयता आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

दिनांक 2 जुलाई 2009

सं. ए-12011/5/2009-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री संदीप सुदामराव कदम को 23 मई, 2009 के पूर्वाह्न से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के कार्यकाल पर्यन्त को-टर्मिनस (प्रतिनियुक्ति) आधार पर अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 9,300--20,200/- रुपये के वेतन बैंड (पी बी-2) + 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2009

सं. 6-1/2008-ई.ओ.पी.--राष्ट्रपति, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में उप-निदेशक (तदर्थ) श्रीमती रजनी अग्रवाल को पे-बैंड (पी.बी.-3) 15,600--39,100 + 6,600/- रुपये ग्रेड वेतन में 26.6.2009 से नियमित आधार पर उप-निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

बाबू राम, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2009

सं. ए-32014/1/2006-स्था.-1--राष्ट्रपति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-सी को 9,300--34,800/+ ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये के पे बैंड-2 में चयन सूची वर्ष 2005 के लिए 16.4.2009 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर आशुलिपिक ग्रेड-क और ख (विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं:--

श्री काकानी एच.आर.बी.ए.एस. सरमा

2. उपर्युक्त नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग दिनांक 16 मार्च, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2009-सीएस-2 में निहित शर्तों के अधधीन है।

शिव कुमार गंडोत्रा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जुलाई 2009

सं. ए-12011/6/2002-स्थापना--इस विभाग में कार्यरत डा. (श्रीमती) अर्चना खाटकर, कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी) को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के पूरे होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हुए 20 जुलाई, 2009 के अपराह्न से कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 अक्टूबर 2008

शुद्धि-पत्र

सं. ए-17013/23/2001-भा.व.से.-II--15 सितम्बर, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा सं. 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करने के लिए आंशिक संशोधन किया जाता है :--

पैरा 2 : अधिकारी श्री आई. एच. खान को वर्ष 2001 की वरिष्ठता/आवंटन चयन सूची में क्रम सं. 2क पर श्री एच. के. पाण्डे (क्र. सं. 2) के नाम के नीचे और श्री ए. के. तिवारी (क्र. सं. 3) के ऊपर शामिल किया गया है जिसे दिनांक 1 फरवरी, 2007 की फा. सं. 18014/05/2006 आई.एफ.एस.-II द्वारा अधिसूचित किया गया था।

ए. के. लाल, निदेशक

दिनांक 20 अप्रैल 2009

सं. 17013/06/2008-भा.व.से.-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य वन सेवा के अधिकारियों के भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए वर्ष, 2007 की चयन सूची तैयार करने के लिए दिनांक 23.12.2008 को चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में तैयार की गई चयन सूची को संघ लोक सेवा आयोग ने अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन

सेवा के कर्नाटक संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति कोटि रिक्तियों को भरने के लिए कर्नाटक राज्य वन सेवा के निम्नलिखित दो सदस्यों के नाम शामिल हैं :--

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	देवराज एन. (अनु. जाति)	28.04.1957
2.	प्रकाश एस. नेतालकर	25.07.1963

ए. के. लाल, निदेशक

दिनांक 30 अप्रैल 2009

सं. ए-17013/18/2008-आई.एफ.एस.-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में निर्हित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय वन सेवा के उड़ीसा संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति कोटि रिक्तियों को भरने के लिए चयन समिति की दिनांक 31.12.2008 को आयोजित बैठक में वर्ष 2004 से 2008 के लिए उड़ीसा राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए तैयार की गई सूची को अनुमोदित कर दिया है। इस सूची में निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल हैं:--

चयन सूची 2004

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	के. सी. दलाई (अ. जा.)	03.01.1961
2.	बिपिन बिहारी बेहरा (अ. जा.)	16.03.1952
3.	दुर्योधन बेहरा (अ. जा.)	01.01.1952
4.*	प्रफुल्ल कुमार मिश्रा	05.01.1956
5.	रमाकांत मिश्रा	22.02.1954
6.	नलिनी कांत राऊत	07.06.1953
7.	अजय कुमार जैना	12.01.1956

*क्र. सं. 4 पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के अध्यक्ष हैं।

चयन सूची 2005

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
1	2	3
(सर्वश्री)		
1.*	शंकरसन बेहरा (अ. जा.)	04.08.1956
2.	अभिराम नायक (अ. ज. जा.)	17.05.1960

1	2	3
2क#	प्रफुल्ल कुमार मिश्रा	05.01.1956
3.	जीतशत्रु मोहन्ती	09.03.1955
4.	सरत कुमार मोहन्ती	02.07.1957
5.	अनन्त किशोर परुस्ती	12.08.1955

*क्र. सं. 1 पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के अध्यक्ष हैं।

#क्र. सं. 2क में दिए गए अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुसरण में सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है। इन्हें सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के अध्यक्ष हैं।

चयन सूची 2006

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
OA*	शंकरसन बेहरा (अ. जा.)	04.08.1956
1#	नारायण समल	07.04.1952

*क्र. सं. OA में दिए गए अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुसरण में सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है। इन्हें सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के अध्यक्ष हैं।

#क्रम सं. 1 पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र दिए जाने के अध्यक्ष हैं।

चयन सूची 2007

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
OA*	शंकरसन बेहरा (अ. जा.)	04.08.1956
OB*	प्रफुल्ल कुमार मिश्रा	05.01.1956
OC#	नारायण समल	07.04.1952
1@	सुधाकर भलिक (अ. जा.)	16.01.1957

*क्र. सं. OA एवं OB में दिए गए अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुसरण में सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है। इन्हें सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के अध्यक्ष हैं।

*क्र. सं. OC में दिए गए अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुसरण में सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है। इन्हें सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र दिए जाने के अध्वधीन है।

@ क्र. सं. 1 पर अधिकारी के नाम को अनंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र दिए जाने के अध्वधीन है।

चयन सूची 2008

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	बिरंची नारायण ठाकुर	22.04.1957

ए. के. लाल, निदेशक

दिनांक 9 जून 2009

सं. 19011/10/2009-भा.व. से.--राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर संवर्ग के 2001 आबंटन वर्ष के भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुश्री शैली रंजन को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सहायक वन महानिरीक्षक के पद पर 9 जून, 2009 के चार वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

ए. के. लाल, निदेशक

दिनांक 10 जून 2009

सं. 17013/27/2008-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप नियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य वन सेवा के अधोलिखित दो अधिकारियों को वर्ष 2008 की चयन सूची में उनका नाम शामिल होने के आधार पर भारतीय वन सेवा में 04.06.2009 से नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप नियम (1) के अन्तर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का हिमाचल प्रदेश संवर्ग आबंटित करते हैं :

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	अनिल कुमार शर्मा	10.04.1965
2.	अजीत कुमार ठाकुर	24.01.1965

ए. के. लाल, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2009

सं. ए-12025/35/2007-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. श्रीमती नीलम कुमारी को 02 जून, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (विकृति विज्ञान) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2009

सं. ए-12025/12/2005-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) सुनीता अग्रवाल को दिनांक 30 मई, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग की सामान्य चिकित्सा की विशिष्टता में सहायक आचार्य के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2009

सं. ए-12025/01/2009-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. पंकज त्यागी को 22 जून, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग में जठरान्न रोग विज्ञान की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए-12025/22/2007-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. देवेन्द्र कुमार यादव को 10 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग में बाल रोग शल्य चिकित्सा की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 10 जुलाई 2009

सं. ए-12025/106/2005-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. प्रदीप कुमार को 01.03.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये) + 5,400/- रुपये (ग्रेड पे) के वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. प्रदीप कुमार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पटना के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. प्रदीप कुमार की नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों तक परीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए-12025/122/2005-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सुंदरम श्री हर्ष को 01.06.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये) + 5,400/- रुपये (ग्रेड पे) के वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. सुंदरम श्री हर्ष को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. सुंदरम श्री हर्ष नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2009

सं. ए-12025/102/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. दीपिका गर्ग को 03.10.2007 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पी.बी.-3 (15,600--39,100/- रुपये) + 5,400/- रुपये (ग्रेड पे) के वेतनमान में अस्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं। डॉ. दीपिका गर्ग को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. दीपिका गर्ग नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगी।

माया प्रकाश, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. ए-19013/18/5-स्था.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.03.2009 के का. ज्ञा. सं. 5/3/2005-ईओ (एमएम-I) के अनुसरण में श्रीमती अर्चना वर्मा, आईएएस (ए एम : 95) द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में वर्तमान में धारित उप सचिव के पद को दिनांक 01.07.2009 (पूर्वाह्न) से और उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 17.07.2010 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उनके वैयक्तिक उपाय के रूप में निदेशक के पद के तौर पर पुनः नामोद्दिष्ट करते हैं।

अनिल उनियाल, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय.

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2009

सं. ए-32014 (1)/2009-स्थापना-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/2/2009-सी.एस.-II दिनांक 16.3.2009 के अनुपालन में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड-बी/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 के आधार पर राष्ट्रपति कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग) के सीएसएसएस संवर्ग की श्रीमती कुसुम लता रजौरा, ग्रेड 'सी' आशुलिपिक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग संवर्ग में वेतन बैंड-2 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड पे 4,800/- रु.

के वेतनमान में 1.6.2009 (पूर्वाह्न) से निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2009

सं. 7-2/94-एम-II (खण्ड-IV)--दिनांक 27 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. 7-2/94-एम-II (खण्ड-IV) के क्रम में राष्ट्रपति, डॉ. एम. वेलायुधन नायर, प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष, संरक्षण विभाग और शैक्षिक मामलों के संकायाध्यक्ष, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली की निदेशक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण प्रयोगशाला, ई-3, अलीगंज, लखनऊ-226024 के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 10 अगस्त, 2009 के पूर्वाह्न से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाती है।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 जून 2009

शुद्धि-पत्र

दिनांक 10.06.2009 की अधिसूचना सं. 3(11)/2009-का.-I में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना के क्रम सं. 32 पर दर्शाया गया नाम "श्रीमती प्रकाशवती" के स्थान पर "श्रीमती प्रकाशवती हस्तोरिया" पढ़ा जाए।

2. शेष शर्तें एवं निबंधन अपरिवर्तित रहेंगी।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 2 जुलाई 2009

सं. 3 (7)/2009-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निम्नलिखित निजी सचिवों को इस विभाग में उनके नाम के सामने दर्शाई तारीख से 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15600--39,100/- रुपये के संशोधित वेतन ढांचे में स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर प्रधान निजी सचिव नियुक्त किया है :

क्रम अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख
सं.	
1. श्रीमती अनीता बाला कौशिक	25.06.2009 (पूर्वाह्न)
2. श्रीमती वीना खनगवाल	25.06.2009 (पूर्वाह्न)
3. श्रीमती सुरिन्दर कौर	25.06.2009 (पूर्वाह्न)
4. श्री के. सी. बालासुब्रमणियन	29.06.2009 (पूर्वाह्न)

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 3 जुलाई 2009

सं. 3 (10)/2008-का.-I--राष्ट्रपति जी, ने श्री राजीव गंगल, आईआरटीएस (1991) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दिनांक 03.07.2009 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रुपये के वेतन ढांचे में निदेशक नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2009

सं. ई (जी.पी.)/2007/3/2--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के सिविल इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित 4 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 21.04.2009 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी (आई.आर.एस.ई.) सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं:--

2007-08 के लिए पैल

अधिकारियों के नाम

पूर्व रेलवे

1. श्री भूरे लाल
 2. श्री राणा बंझोपाध्याय
- पश्चिम रेलवे
- श्री ए. एच. चंडोलीकर

2008-09 के लिए पैल

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

श्री यू. वेणुगोपाल

के. बी. एल. मिश्र, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी 31.05.2009 के अपराह्न से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| (i) श्री ए. के. उपाध्याय | सलाहकार (सतर्कता) |
| (ii) श्री जगदीश लाल | प्रमुख निजी सचिव |
| (iii) श्री पी. के. चक्रवर्ती | अनुभाग अधिकारी |

के. बी. एल. मिश्र, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2009

सं. एल.एच.-13013/1/2006-एस.एल.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों का उनके नामों के आगे दी गई तारीखों से अगले आदेश तक दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में सहायक कार्यपालक इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं:--

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. श्री कुलवन्त सिंह | 30.09.2008 |
| 2. श्री उमेश कुमार | 24.11.2008 |
| 3. श्री अनिल अन्तेनी | 29.09.2008 |
| 4. श्री के. कार्तिक चैनसूदार | 03.11.2008 |
| 5. श्री मुकेश परमार | 17.11.2008 |
| 6. श्री जी. सत्यनारायण | 25.11.2008 |

एस. के. गोस्वामी, अवर सचिव

सं. एल.एच.-21012/1/2008-एस.एल.--राष्ट्रपति, श्री पी. येनेसू, सहायक अभियंता (सिविल को 24 अप्रैल, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 8,000--13,500/- रु. (पूर्व संशोधन) के वेतनमान में दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर प्रोन्नत करते हैं।

एस. के. गोस्वामी, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जून 2009

फा. सं. 6/1/2007-प्रशा.-II--माननीय राष्ट्रपति, सुश्री दीपाली खन्ना, आई.आर.एस. (76) को दिनांक 19.06.2009 की पूर्वाह्न से अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रूप में नियुक्त करती है।

राम फल, अवर सचिव

दिनांक 8 जुलाई 2009

(सं. 224/2009) फा. सं. 12/7/2009-प्रशा.-II--महामहिम राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/3/2009-ईओ (एमएम-1) दिनांक 06.07.2009 के अनुसरण में, श्री रंजन पी. ठाकुर, आईआरटीएस (89) को 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-4 (37,400--67,000/ रु.) में 1 जून, 2009 से उनके कार्यकाल के शेष पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 19.08.2012 तक या मंत्री के निजी सचिव के रूप में उनके कार्य समाप्त हो जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी सबसे पहले हो, निदेशक के स्तर पर पार्श्व स्थानांतरण आधार पर, सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अंबिका सोनी) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

2. श्री रंजन पी. ठाकुर की नियुक्ति सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अंबिका सोनी) की प्रेरणा से तथा उनके मंत्री पद पर बने रहने तक होगी।

राम फल, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 जुलाई 2009

सं. ए-11013/3/2009-प्रशासन-1--राष्ट्रपति द्वारा श्री अतुल कुमार तिवारी, आई.ए.एस. (कर्नाटक : 90) को दिनांक 29.5.2009 (पूर्वाह्न) से उनके पांच वर्ष के कार्यालय की शेष अवधि यानी 12.11.2011 तक अथवा उनके द्वारा माननीय शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव के रूप में काम करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक स्तर पर शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्री वी. के. शर्मा, निदेशक(प्रशा.)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2009

सं. ए-12025/1/2005-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नांकित सहायकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2005 के आधार पर वर्ष 2005 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी संवर्ग परीक्षा कोटा की चयन सूची में उनके नामों के शामिल होने के परिणामस्वरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारियों (समूह 'ख'/राजपत्रित) पीबी-2 (9,300--34,800/- रुपये + ग्रेड पे 4,800/-) में, प्रत्येक के आगे उल्लिखित तिथि से नियुक्त करते हैं :--

क्रम अनुभाग अधिकारी का नाम सं. (रैंक संख्या)	नियुक्ति की तारीख
1. सुश्री पूजा शर्मा (04)	17.06.2009 (पूर्वाह्न)
2. श्री हरीश चन्द्र प्रसाद (98)	15.06.2009 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में लंबित श्री कैलाश चन्द्र बनाम भारतीय संघ की सिविल रिट याचिका संख्या 13245-60/2005 एवं माननीय कैंट, नई दिल्ली में लंबित श्री सौराशु सिन्हा बनाम भारतीय संघ की ओए संख्या 1083/2007 एवं एमए संख्या 1171/2007 के परिणामों के अध्यधीन होगी। अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति हेतु सिफारिश किए गए सहायकों की वरिष्ठता केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा संघ बनाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सीधी भर्ती सहायक संघ के मामले में सिविल रिट याचिका संख्या 4876/2007 के अंतिम परिणाम के अध्यधीन होगी।

आर. एल. तपरियाल, उप सचिव

दिनांक 6 जुलाई 2009

सं. ए-12025/1/2005-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री धरमिन्दर सिंह, सहायक को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2005 के आधार

पर 1 जुलाई, 2009 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी संवर्ग परीक्षा कोटा (रैंक संख्या 134) की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख'/राजपत्रित) पीबी-2 (9,300--34,800/- रुपये + ग्रेड पे 4,800/-) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में लंबित श्री कैलाश चन्द्र बनाम भारतीय संघ की सिविल रिट याचिका संख्या 13245-60/2005 एवं माननीय कैंट, नई दिल्ली में लंबित श्री सौराशु सिन्हा बनाम भारतीय संघ की ओए संख्या 1083/2007 एवं एमए संख्या 1171/2007 के परिणामों के अध्यधीन होगी। अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति हेतु सिफारिश किए गए सहायकों की वरिष्ठता केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा संघ बनाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सीधी भर्ती सहायक संघ के मामले में सिविल रिट याचिका संख्या 4876/2007 के अंतिम परिणाम के अध्यधीन होगी।

आर. एल. तपरियाल, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2009

सं. ए-12025/02/2006-आई.एस.एच.-II--राष्ट्रपति, श्री सूर्यकांत महादेव चौगुले को दिनांक 03.03.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक सहायक निदेशक, (औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान) के पद पर 8,000-275-13,500/- रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान में महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान, मुंबई में नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

सं. ए-32012/03/2008-आई.एस.एच.-II--राष्ट्रपति, श्री एस. जी. दारव्हेकर को दिनांक 01.07.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 18,400-500-22,400/- रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान, डी. जी. फासली मुंबई में महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. डीजीईटी-ए-38013/1/2009-टीए-I--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर श्री पी. वी. राघवन, प्रशिक्षण अधिकारी दिनांक 30.06.2009 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। दिनांक 30.06.2009 (अपराह्न) से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की पदावली से उनका नाम हटा दिया गया है।

देव प्रकाश सिंह, अवर सचिव

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 26th June 2009

No. A-12011/6/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. (Miss) Sudha Raman as Assistant Director in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 5,400/- in the National Security Council Secretariat, on contract basis with effect from the forenoon of 1st June 2009, initially for a tenure of three years (including one year probation) extendable by a further period of two years, or until further orders whichever is earlier.

P. K. ROY, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 2nd July 2009

No. A-43011/02/2009-Adm.I (Vol. II)—In continuation of Notification number A-43011/02/2009-Admn.I dated 28.01.2009 regarding creation of Unique Identification Authority of India (UIDAI) as an Attached Office of the Planning Commission, it is notified that the Competent Authority has approved the appointment of Shri Nandan Nilekani, Co-Chairman, INFOSYS as Chairperson, Unique Identification Authority of India, in the rank and status of a Cabinet Minister. Shri Nilekani will hold appointment for an initial tenure of five years.

ANIL MALHOTRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 1st July 2009

No. A-44011/5/2009-Adm.I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. P-3/2009 dated 05.06.2009 issued from their file No. 13016/2/2009-IES, Shri J. S. Negi, Non-Functional Selection Grade (NFSG) Officer of IES working as Director in Planning Commission is promoted to the Senior Administrative Grade (SAG) in the Service with effect from 29.06.2009 (FN) in the scale of pay of Rs. 18,400—22,400/- (pre-revised) [Revised to Pay Band-4; Rs. 37,400—67,000/- Plus Grade Pay Rs. 10,000/-] against one of the seven posts which have been upgraded to SAG following the Cabinet decision of 21.08.2008 and the subsequent Gazette Notification No. GSR 648 (E) dated 10.09.2008.

2. The said upgraded post will slide back to NFSG level on retirement of the promoted officer(s) from service or when the promoted officer is covered within the sanctioned SAG posts of IES.

3. Consequent on his promotion to SAG of IES, he is designated as Adviser in the Planning Commission.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 8th July 2009

No. F. 6(2059)/2008-Adm.I—In partial modification of Planning Commission's Notification of even number dated

29th May, 2009, paragraph 2 thereof may be replaced with the following:—

“2. In continuation thereof, Shri Ahuja is granted Earned Leave for the period upto 29-05-2009 with permission to suffix 30th and 31st May, 2009 (Saturday and Sunday). On expiry of leave, he will join his parent Cadre, i.e. Govt. of Orissa.”

2. All other things mentioned therein the earlier Notification remain unchanged.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 7th July 2009

No. A-20/G-B/157—In continuation of the Commission's Notification of even number dated 26th June, 2008 the term of deputation of Shri P. K. Giri, Assistant Accounts Officer, in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with corresponding Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Election Commission of India is hereby extended for a further period of one year w.e.f. 01.08.2009 to 31.07.2010 or until further orders whichever is earlier.

S. R. KAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 8th July 2009

No. 107/2009/T. No. A-38013/2/2009-VSP(A)—On attaining the age of superannuation, Smt. Saraswati Vishwanathan, Publication-cum-Sales Manager, Vidhi Sahitya Prakashan Legislative Department, Ministry of Law & Justice retired from Government Service on the 30th June, 2009 and relinquished the charge of the said post with effect from the afternoon of the aforesaid date.

KULDEEP KUMAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 6th July 2009

No. A-12025(1)/3/2006-Admn.I (L. D.)/Vol. II—The President is pleased to appoint Dr. G. Narayana Raju, Additional Legislative Counsel (Grade II of Indian Legal Service) to officiate as Joint Secretary & Legislative Counsel (Grade I of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- (Grade Pay) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 6th July, 2009 and until further orders.

2. Dr. G. Narayana Raju will be on probation for a period of two years with effect from 6th July, 2009.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 30th June 2009

No. A-38012/1/2009-Adm.IV(LA)—On attaining the age of superannuation, Shri Jyotirmoy Khosla, Joint Secretary & Legal Adviser, Department of Legal Affairs, retires from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2009.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

No. A-38013/1/2009-Adm.IV(LA)—On attaining the age of superannuation, Shri Y. P. Kakar, Private Secretary, Department of Legal Affairs, retires from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2009.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 19th June 2009

No. 44/15/2008-NDM-IV—The President is pleased to appoint the following Grade-I Officers of the Central Secretariat Service in the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis with effect from the dates indicated against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Select List Year for Selection Grade	Date of appointment
1.	Shri Prem Kumar	2006	23.02.2009 (FN)
2.	Shri R. K. Singh	2007	20.02.2009 (FN)

PROMILA SENGUPTA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 29th June 2009

No. 14046/11/2009-UTS-II—The Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs, the Appointing Authority in respect of Entry Grade Officers of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service (DANICS) has accepted the notice of voluntary retirement dated 31st March, 2009 of Shri S. K. Khosla (Date of Birth : 30.06.1953), Entry Grade Officer of DANICS and permitted him to retire voluntarily under Rule 48 (1) of the CCS (Pension) Rules, 1972, with effect from the forenoon of 7th July, 2009.

J. K. SINGH, Desk Officer

The 1st July 2009

No. 14046/12/2009-UTS-II—The Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs, the Appointing Authority in respect of Entry Grade Officers of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service

(DANICS) has accepted the notice of voluntary retirement dated 9th March, 2009 of Shri Vinod Kumar Malhotra (Date of Birth : 10.04.1952), Entry Grade Officer of DANICS and permitted him to retire voluntarily under Rule 48 (1) of the CCS (Pension) Rules, 1972, with effect from the forenoon of 2nd July, 2009.

J. K. SINGH, Desk Officer

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 9th July 2009

No. 14013/07/2009-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Maharashtra, with effect from the dates shown against them:—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri P. E. Gaikwad	1997	29.03.2005
2.	Shri S. R. Daund	1997	29.03.2005
3.	Shri P. N. Bhapkar	1997	29.03.2005
4.	Shri D. S. Dhok Rajurkar	1998	29.03.2005
5.	Shri H. K. Jawale	1998	29.03.2005
6.	Shri R. R. Jadhav	1998	29.03.2005
7.	Shri V. V. Deshmukh	1998	29.03.2005
8.	Shri S. P. Kadu	1998	29.03.2005
9.	Shri J. D. Patil	1998	29.03.2005
10.	Shri S. R. Hajare	1998	29.03.2005
11.	Shri B. D. Sanap	1998	29.03.2005
12.	Shri P. D. Gabrial	1998	29.03.2005
13.	Shri M. H. Sawant	1998	26.05.2005

G. C. PANDEY, Under Secy.

No. 14012/06/2009-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Karnataka, with effect from the dates shown against them:—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Jaffer P. C.	2003	03.09.2005
2.	Shri Manoj Kumar Meena	2003	01.09.2005

G. C. PANDEY, Under Secy.

The 6th March 2009

No. 08/PA-II/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Sushil Kumar Datta, First Secretary, Embassy of India, Ljubljuna, retired from the Junior Administrative Grade of the Indian Foreign Service, on the afternoon of 28th February, 2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

The 24th March 2009

No. 13/PA-II/2009—On attaining the age of superannuation, Shri R. G Nair, Deputy Secretary, retired from the Government Service on the afternoon of 31st December, 2008.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 7th July 2009

No. A-19012/03/2005-Admn. IA—Consequent upon the extension of the period of HAG + level post of the Indian Economic Service by one year in Department of Economic Affairs temporarily transferred from Planning Commission vide IES Cadre Order No. 13016/1/2008-IES dated 29.06.2009, the President is pleased to extend the period of appointment of Shri R. C. Srinivasan (IES), Principal Adviser in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance for a period upto 30.06.2010 in the Pay Scale of Rs. 80,000/- (fixed) with effect from the forenoon of 1st July, 2009 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 8th July 2009

No. A-12026/5/2005-Ad.I—In continuation of this Department's Notification No. PFG(2142)/Admn.I/2004 dated 14th July, 2004, the President is pleased to extend the Central deputation tenure of Shri M. Deena Dayalan, IA&AS (1978), Joint Secretary & Financial Advisor in the Department of Expenditure, Ministry of Finance beyond 11.07.2009 till his date of superannuation on 28.02.2010.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 10th July 2009

CORRIGENDUM

No. A-5(2)2009-SEZ—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 1st June, 2009, the scale of pay of Deputy Development Commissioner, Madras Special Economic Zone, Chennai may be read as "Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay, instead of

Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,000/- (Grade Pay). The other terms and conditions shall remain unchanged.

D. L. ALWADHI, Under Secy.

SUPPLY DIVISION

New Delhi, the 3rd July 2009

No. A-35013/1/2009-Cadre—The President is pleased to appoint Ms. Mala Iyengar, IDAS (91), as Director in the Department of Commerce (Supply Division) with effect from the forenoon of June 19, 2009, for a period of five years from the date of taking over charge of the post i.e. upto the afternoon of June 18, 2014 or until further orders, whichever event takes place earlier, as conveyed by DOP&T vide their O. M. No. 10/5/2009-EO(MM-I), dated June 8, 2009.

2. Ms. Mala Iyengar, IDAS (91), is posted as Director (Finance).

PARMJIT SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF COMMERCE

New Delhi, the 13th July 2009

CORRIGENDUM

No. A-12022/25/2007-E.IV—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 14th May, 2009 (copy enclosed), the period of Central deputation of Shri M. S. Rao, IAS (AM : 87) as Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone may be read as "for the period from 27.03.2009 till 23.12.2011 i.e. the date on which he would complete 7 years of Central deputation, or until further orders, whichever event takes place earlier."

2. The other terms and conditions shall remain unchanged.

N. K. LAKHANPAL, Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi, the 2nd July 2009

No. 7(11)/2007-IPR.I (IPAB)—The President is pleased to appoint Ms. S. Usha, Technical Member, Intellectual Property Appellate Board (IPAB) as Vice-Chairman in Intellectual Property Appellate Board, Chennai with effect from the forenoon of June 22, 2009 for a period of five years or until she attains the age of 65 years, whichever is earlier.

2. The salaries and allowances payable to Ms. S. Usha as Vice-Chairman in the Intellectual Property Appellate Board and the conditions of service by which she will be governed, shall be in accordance with the provisions of the "Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowance payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2003 and Amendment Rules, 2007."

M. S. DHAKAD, Director

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS &
PETROCHEMICALS)
(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING
AUTHORITY)

New Delhi, the 13th July 2009

No. 12011/5/2004-Estt. (NPPA)—In continuation of this office Notification of even number dated 29.07.2008, the President is pleased to extend the tenure of ad-hoc promotion in respect of Shri K. K. Jain, Deputy Director (Technical) to the post of Director (Monitoring & System) for a period of one year w.e.f. 01.01.2009 or till regular incumbent joins, whichever is earlier.

R. C. BHATT, Director (Admn.)

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

New Delhi, the 10th July 2009

No. A-19011/5/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Paresh Johri, IRS (IT : 95), Deputy Secretary as Director in the Department of Pharmaceuticals by re-designating the post of Deputy Secretary to that of Director as a measure personal to him w.e.f. 10th July, 2009 for the balance period of his tenure upto 28.11.2009 or until further orders whichever event takes place earlier.

RAM CHANDER Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 10th June 2009

No. 5(10)/2007-Estt.—In supersession of earlier Notification of even No. dated 05.06.2009, the President is pleased to appoint Shri B. S. Meena, IAS (MH : 75), Additional Secretary & Financial Adviser Ministry of Steel as Special Secretary & Financial Advisor in the same Ministry w.e.f. 17th May, 2009 (FN).

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 8th July 2009

No. A-19011/8/2009-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Rohit Mathur as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS in the year 2007) on regular basis in the Ministry of Food Processing Industries with effect from 07.07.2009 (AN) in terms of Department of Personnel & Training's Office Order No. 4/1/2009-CSI(D) dated 06.07.2009.

S. K. NANDA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 1st July 2009

No. A-12011/8/2006-Estt.—In continuation of this Department's Office Order No. 48/2009 dated the 3rd June, 2009, the President is pleased to appoint Shri Rakesh Joshi, a regular Metrological Assistant as Assistant Director (Legal Metrology) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of the 3rd June, 2009 in the Department of Consumer Affairs for a period of one year or till he is appointed on regular basis in consultation with the UPSC or until further orders, whichever is the earliest.

2. This ad-hoc promotion would not bestow on Shri Rakesh Joshi any right to claim regular promotion, seniority etc. in the grade of Assistant Director (Legal Metrology).

PREMA BHATT, Under Secy.

The 2nd July 2009

No. A-12011/5/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sandeep Sudamrao Kadam as Assistant Private Secretary to Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Shri Shard Pawar) in the Pay Band of Rs. 9,300—20,200/- (PB-2) with a Grade Pay of Rs. 4,800/- (Group "B" Gazetted) with effect from the forenoon of 23rd May, 2009 on co-terminus (deputation) basis with the tenure of Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution or until further orders, whichever is earlier.

PREMA BHATT, Under Secy.

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi-110001, the 8th July 2009

No. 6-1/2008-EOP—The President is pleased to appoint Smt. Rajni Agrawal, Deputy Director (Ad-hoc) as Deputy Director on regular basis in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, Department of Food and Public Distribution w.e.f. 26.06.2009 in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- Grade Pay.

BABOO RAM, Dy. Secy.

New Delhi, the 3rd July 2009

No. A-32014/1/2006-EI—The President is pleased to appoint the following regular Stenographer Grade 'C' of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) in the Department of Food & Public Distribution as Stenographer

Grade 'A & B' (Merged) on regular basis w.e.f. 16.04.2009 (FN) for the Select List year, 2005 in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-:—

Sl. No.	Name
1.	Shri Kakani H. R. B. A. S. Sarma

2. The above appointment is subject to the conditions laid down in the DOP&T's O. M. No. 5/2/2009-CS-II, dated the 16th March, 2009.

SHIV KUMAR GANDOTRA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 6th July 2009

No. A-12011/06/2002-Estt.—Consequent upon completion of her deputation term, Dr. (Smt.) Archana Khatavkar, Junior Analyst (Technical) in this Department is relieved of her duties with effect from the afternoon of July 20, 2009 and with the direction to report for duty to Central Revenue Control Laboratory, New Delhi.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 10th October 2008

No. A-17013/23/2001-IFS-II—The Notification of even number dated 15th September, 2008 is partially modified so as to replace the existing Para No. 2 therein with the following :—

Para 2 : The officer Sh. I. H. Khan is included in the Seniority/Year of Allotment Select List of 2001 which was notified by F. No. 18014/05/2006-IFS-II. Dated 1st February, 2007 at Serial No. 2A below the name of Shri H. K. Pandey (S. No. 2) and above the name of Shri A. K. Tiwari (S. No. 3).

A. K. LAL, Director

The 20th April 2009

No. 17013/06/2008-IFS.II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of Select List for promotion from the State Forest Service of Karnataka to the Indian Forest Service for the year 2007 was held on 23.12.2008. The Union Public Service Commission has approved the Select List prepared in the said meeting containing the name of following officers of the State Forest Service of Karnataka towards filling up of promotion quota

vacancies available in Karnataka cadre of the Indian Forest Service :—

Select List of 2007 :

S. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Devaraj N. (SC)	28.04.1957
2.	Prakash S. Netalkar	25.07.1963

A. K. LAL, Director

The 30th April 2009

No. 17013/18/2008-IFS.II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission has approved the Select Lists for promotion from State Forest Service of Orissa to the Indian Forest Service for the years 2004 to 2008 prepared in the Selection Committee meeting held on 31.12.2008 containing the name of following officers of the State Forest Service of Orissa towards filling up of promotion quota vacancies available in Orissa cadre of the Indian Forest Service :—

Select List of 2004 :

S. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	K. C. Dalai (SC)	03.01.1961
2.	Bipin Bihari Behera (SC)	16.03.1952
3.	Duryodhan Behera (SC)	01.01.1952
4.*	Prafulla Kumar Mishra	05.01.1956
5.	Ramakanta Mishra	22.02.1954
6.	Nalini Kanta Rout	07.06.1953
7.	Ajay Kumar Jena.	12.01.1956

*The name of officer at Sl. 4 has been included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him.

Select List of 2005 :

S. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.*	Sankarsan Behera (SC)	04.08.1956
2.	Abhiram Nayak (ST)	17.05.1960
2A#.	Prafulla Kumar Mishra	05.01.1956
3.	Jita Satru Mohanty	09.03.1955
4.	Sarat Kumar Mohanty	02.07.1957
5.	Ananta Kishore Prusty	12.08.1955

*The name of officer Sl. 1 has been included in the list

provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him.

#The Officer at Sl. No. 2A has been included in addition to normal size of the list in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulations, 1966. He has also been included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him.

Select List of 2006 :

S. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
0A*	Sankarsan Behera (SC)	04.08.1956
1#.	Narayan Samal	07.04.1952

*The Officer at Sl. No. 0A has been included in addition to normal size of the list in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulations, 1966. He has also been included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him.

#The name of officer at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

Select List of 2007 :

S. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
0A*	Sankarsan Behera (SC)	04.08.1956
0B*	Prafulla Kumar Mishra	05.01.1956
0C#.	Narayan Samal	07.04.1952
1@.	Sudhakar Mallick (SC)	16.01.1957

*The Officer at Sl. No. 0A & 0B have been included in addition to normal size of the list in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulations, 1966. They have also been included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him.

The Officer at Sl. No. 0C have been included in addition to normal size of the list in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulations, 1966. He has been included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

@The name of the Officer at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

Select List of 2008 :

S. No.	Name	Date of Birth
1.	Sh. Biranchi Narayan Thakur	22.04.1957

A. K. LAL, Director

The 9th June 2009

No. 19011/10/2009-IFS-I—The President is pleased to appoint Ms. Shally Ranjan, an Indian Forest Service Officer of 2001 Year of Allotment borne on Jammu & Kashmir Cadre, to the post of Assistant Inspector General of Forests in the Ministry of Environment and Forests on deputation under the Central Staffing Scheme of the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 9th June, 2009 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

A. K. LAL, Director

The 10th June 2009

No. 17013/27/2008-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forests Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with effect from 04.06.2009, the following two officers of the State Forest Service of Himachal Pradesh to the Indian Forests Service on the basis of Select List for the year 2008 and allocate them to Himachal Pradesh cadre of Indian Forests Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Anil Kumar Sharma	10.04.1965
2.	Ajit Kumar Thakur	24.01.1965

A. K. LAL, Director

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 7th July 2009

No. A-12025/35/2007-CHS.IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Neelam Kumari to the post of Specialist Grade II (Pathology) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service on probation w.e.f. the forenoon of the 2nd June, 2008, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 10th July 2009

No. A-12025/12/2005-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Ms.) Sunita Aggarwal to the post of

Assistant Professor in the speciality of General Medicine in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of the 30th May, 2007, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 14th July 2009

No. A.12025/1/2009-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pankaj Tyagi to the post of Assistant Professor in the speciality of Gastroenterology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation with effect from the forenoon of the 22nd June, 2009, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A.12025/22/2007-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Devendra Kumar Yadav to the post of Assistant Professor in the speciality of Paediatric-Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation with effect from the forenoon of the 10th January, 2009, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

New Delhi-110011, the 10th July 2009

No. A.12025/106/2005-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pradeep Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15600—39100/-) + Rs. 5400/- (grade pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01.03.2007 until further orders. Dr. Pradeep Kumar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Patna. Dr. Pradeep Kumar shall be on probation for two years from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A.12025/122/2005-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sundaram Sri Harsh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15600—39100/-) + Rs. 5400/- (grade pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01.06.2007 until further orders. Dr. Sundaram Sri Harsh is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi. Dr. Sundaram Sri Harsh shall be on probation for two years from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 13th July 2009

No. A.12025/102/2004-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is

pleased to appoint Dr. Deepika Garg to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15600—39100/-) + Rs. 5400/- (grade pay) in a temporary capacity with effect from the afternoon of 03.10.2007 until further orders. Dr. Deepika Garg is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Deepika Garg shall be on probation for two years from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FW)

New Delhi, the 1st July 2009

No. A.19013/18/5-E.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No.5/3/2005-EO(MM-I) dt. 16.03.2009, the President is pleased to re-designate the post of Deputy Secretary, presently held by Smt. Archana Varma, IAS (AM : 95) in the Department of Health & Family Welfare, to that of Director as a measure personal to her w.e.f. 01.07.2009 (FN) and upto the balance period of her tenure i.e. 17.07.2010, or until further orders, whichever is earlier.

ANIL UNIYAL, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 19th June 2009

No. A-32014(1)2009-E-III—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/2/2009-CS.II dated 16.03.2009, on the basis of Section Officer/Stenographers (Gr. B/Gr.I) Limited Departmental Competitive Examination, 2005 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Smt. Kusum Lata Rajora, Stenographer Grade 'C' belonging to CSSS cadre of the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries) as Private Secretary in the cadre of Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education in the scale of Pay of PB-2 Rs. 9300—34800+Grade Pay Rs. 4800/- on regular basis w.e.f. 01.06.2009 (forenoon).

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 14th July 2009

No. 7-2/94-M-II (Vol. IV)—In continuation of notification No. 7-2/94-M-II (Vol. IV) dated 27th September, 2005, the President is pleased to extend the deputation of Dr. M. Velayudhan Nair, Professor & Head, Department of Conservation & Dean of Academic Affairs, National Museum Institute, Janpath, New Delhi, in the post of Director, National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, E-3, Aliganj, Lucknow-226024, with effect from forenoon of 10th August, 2009 for a further period not exceeding one year.

S. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 25th June 2009

CORRIGENDUM

In partial modification of Notification No. 3 (11)/2009-Pers.I dated 10-06-2009, the name appearing at S. No. 32 of the said notification may be read as "Smt. Prakash Vati Hastoria" instead of "Smt. Prakashwati".

2. Rest of the terms and conditions shall remain unchanged.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

The 2nd July 2009

No. 3(7)/2009-P.I—The President is pleased to appoint the following Private Secretary of Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology as Principle Private Secretary on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of pay of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the date mentioned against each :—

S.No.	Name of Officer	Date of Promotion
1.	Smt. Anita Bala Kaushik	25.06.2009 (F/N)
2.	Smt. Veena Khanagwal	25.06.2009 (F/N)
3.	Smt. Surinder Kaur	25.06.2009 (F/N)
4.	Sh. K. C. Balasubramanian	29.06.2009 (F/N)

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

The 3rd July 2009

No. 3(10)/2008-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Gangal, IRTS (1991) as Director in the Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology in the pay structure of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 03.07.2009 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 8th July 2009

No. E(GP)2007/3/2—The President is pleased to approve of the undermentioned 4 Group B Officers of Civil Engineering Department of Indian Railways, being appointed

to the Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) with effect from 21.04.2009 on the Railways mentioned against each :—

PANEL FOR 2007-2008

Eastern Railway

Name of the Officers

S/Shri

1. Bhure Lal

2. Rana Bandhopadhyay

Western Railway

A. H. Chandollikar

PANEL FOR 2008-2009

South East Railway

Name of the Officer

S/Shri

U. Venugopal

K. B. L. Mittal, Secy.

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.05.2009 :—

(i) Shri A. K. Upadhyay Adviser (Vigilance).

(ii) Shri Jagdish Lal Principal Private Secretary

(iii) Shri P. K. Chakraborty Section Officer

K. B. L. Mittal, Secy.

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &
HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 30th June 2009

No. LH-13013/1/2006-SL—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Assistant Executive Engineer (Electronics) in the pay scale Rs. 8,000-275-13,500/- in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the dates shown against them until further orders :—

1. Shri Kulwant Singh 30.09.2008

2. Shri Umesh Kumar 24.11.2008

3. Shri Anil Antony 29.09.2008

4. Shri K. Karthik Chensudar 03.11.2008

5. Shri Mukesh Parmar 17.11.2008

6. Shri G. Satyanarayana 25.11.2008

S. K. GOSWAMI, Under Secy.

No. LH-21012/1/2008-SL—The President is pleased to promote Shri P. Yenesu, Assistant Engineer (Civil) to the post of Assistant Executive Engineer (Civil) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (pre-revised) in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the forenoon of 24th April, 2009, until further orders.

S. K. GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110001, the 23rd June 2009

No. (200/2009) F. No. 6/1/2007-Admn.II—The President is pleased to appoint Ms. Dipali Khanna, IRAS (76) as Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Information & Broadcasting with effect from the forenoon of 19.06.2009.

RAM PHAL, Under Secy.

The 8th July 2009

No. 224/2009 (F. No. 12/7/2009-Admn.II)—Pursuant to DoP&T's O.M. No. 11/3/2009-E.O.(MM-I) dated 06.07.2009, the President is pleased to appoint Shri Ranjan P. Thakur, IRTS (89) as Private Secretary to the Minister of Information & Broadcasting (Smt. Ambika Soni) on lateral shift basis, at the level of Director in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,700/-, for the balance period of his tenure of five years i.e. upto 19.08.2012 with effect from 1st June, 2009, or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

2. The appointment of Shri Ranjan P. Thakur will beat the pleasure of and co-terminus with the tenure of the Minister of Information & Broadcasting (Smt. Ambika Soni).

RAM PHAL, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 2nd July 2009

No. A-11013/3/2009-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Atul Kumar Tiwari, IAS (KN : 90) as Private Secretary to the Minister of Urban Development (Shri S. Jaipal Reddy) at the level of Director in the Government of India with effect from 29.05.2009 (F/N) for the remaining period of his five years tenure up to 12.11.2011 or till he works as Private Secretary to the Hon'ble UDM or until further orders, whichever is earlier.

V. K. SHARMA, Director (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 30th June 2009

No. A-12025/1/2005-Admn.I—The President is pleased to appoint the following Assistants of CSS Cadre as Section

Officer (Group 'B'/Gazetted) in the PB-2 (Rs. 9,300/- 34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-) in the CSS Cadre of Ministry of Labour & Employment on inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2005 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005 held by the Union Public Service Commission, with effect from the date(s) mentioned against each:—

Sl. No.	Name of the Section Officer (Rank No.)	Date of Appointment
---------	--	---------------------

1.	Ms. Pooja Sharma (04)	17.06.2009 (FN)
----	-----------------------	-----------------

2.	Shri Harish Chandra Prasad (98)	15.06.2009 (FN)
----	---------------------------------	-----------------

2. The appointment of the above officials to the grade of Section Officer of CSS Cadre shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander Vs. UOI pending in the Hon'ble Delhi High Court and OA No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in the Hon'ble CAT, New Delhi. The seniority of the Assistants recommended for appointment as Section Officer shall be subject to the final outcome of the Writ Petition (C) No. 4876/2007 in the matter of the Central Secretariat Stenographers' Service Association Vs. The Central Secretariat Service Direct Recruit Assistants' Association.

R. L. TAPRYAL, Dy. Secy.

The 6th July 2009

No. A-12025/1/2005-Admn.I—The President is pleased to appoint Sh. Dharaminder Singh, Assistant of CSS Cadre as Section Officer (Group 'B'/Gazetted) in the PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-) in the CSS Cadre of Ministry of Labour & Employment on inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2005 against Examination Quota (Rank No. 134) on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005 held by the Union Public Service Commission, with effect from 1st July 2009 (FN).

2. The appointment of the above officials to the grade of Section Officer of CSS Cadre shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander Vs. UOI pending in the Hon'ble Delhi High Court and OA No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in the Hon'ble CAT, New Delhi. The seniority of the Assistants recommended for appointment as Section Officer shall be subject to the final outcome of the Writ Petition (C) No. 4876/2007 in the matter of the Central Secretariat Stenographers' Service Association Vs. The Central Secretariat Service Direct Recruit Assistants' Association.

R. L. TAPRYAL, Dy. Secy.

New Delhi, the 10th July 2009

No. A-12025/02/2006-ISH.II—The President is pleased to appoint Shri Suryakant Mahadeo Chaugule to the post of Assistant Director (Industrial Hygiene) in the pre-revised pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes, Mumbai, with effect from 03.03.2009 (F/N) and until further orders.

SUBHASH CHAND, Under Secy.

No. A-32012/03/2008-ISH.II—The President is pleased to appoint Shri S. G. Darvhekar to the post of Director General Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes (DGFASLI), Mumbai in the pre-revised Pay Scale

of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from 01.07.2009 (F/N) and until further orders.

SUBHASH CHAND, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT &
TRAINING

New Delhi-110001, 1st July 2009

No. DGE&T.A-38013/1/2009-TA-I—On attaining the age of superannuation Shri P. V. Raghavan, Training Officer has retired from Government service w.e.f. 30.06.2009. His name has been struck off from the roll of the Directorate General Employment & Training w.e.f. 30.06.2009 (A/N).

DEV PRAKASH SINGH, Under Secy.